



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17—मार्च 23, 2012 (फाल्गुन 27, 1933)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17 —MARCH 23, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Lesave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 फरवरी 2012

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2012

सं. ए. 22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के श्री भागवत प्रसाद राय, उप निदेशक (राजभाषा) को दिनांक 16 फरवरी, 2012 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक प्रधान मंत्री कार्यालय में उप निदेशक (राजभाषा) नियुक्त करती हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2012

सं. आरएस. 20/1/2012/11-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती एनेस मोमिन जॉर्ज, संयुक्त निदेशक 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गईं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. ए-19011/04/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (1986 बैच) की अकृत्यिक चयन श्रेणी की अधिकारी, सुश्री वंदना अग्रवाल, जो मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक के रूप में तैनात हैं, को 10 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 19.01.2012 के आदेश सं. पी-1/2012 के साथ पठित दिनांक 10.02.2012 के आदेश सं. पी-1(पीएम2)/2012(एफ सं. 13016/2/2011-आईईएस) के द्वारा विनिवेश विभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के एक पद का अस्थायी स्थानांतरण करके, मंत्रिमंडल सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.जे. सिबिचन, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-35013/1/2011-(प्रशा.) खण्ड-II--राष्ट्रपति, श्री नरेश कुमार बी.के. को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) में वेतन

बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. में संविदा आधार पर दिनांक 23 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से, प्रारंभ में, 03 वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परिवीक्षा-अवधि सहित) या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, सहायक-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. एस. नायर, उप सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2012

सं. एफ 6(2036)/2007-प्रशा.-I--योजना आयोग की दिनांक 19 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. ए-12034/3/2007-प्रशा.I के अनुक्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 जनवरी, 2012 के पत्रांक 12/11/2006-ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में, सुश्री नमिता मेहरोत्रा, आईआरएस (91), निदेशक, योजना आयोग का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 15.11.2011 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए (जो भी पहले हो) बढ़ाया जाता है।

2. इसे योजना आयोग की 21 नवम्बर, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए जारी किया गया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-19016/296/2009-प्रशा.3--संयुक्त आयुक्त आयकर (ओएसडी) ग्रेड में उनकी तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति जी, सह-सत्रावसानी आधार पर सदस्य (डॉ. नरेन्द्र जाधव), योजना आयोग के निजी स्टाफ में कार्यरत श्री विकास के, सूर्यवंशी, निजी सचिव के पद से दिनांक 29.02.2012 के अपराह्न से सेवामुक्त करते हैं।

2. श्री विकास के. सूर्यवंशी को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने पैतृक कार्यालय अर्थात् मुख्य आयुक्त आयकर (मुख्या.)-X का कार्यालय, कमरा सं. 132, प्रथम तल, आयकर भवन चर्चगेट, मुम्बई-400020 को रिपोर्ट करें।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2012

सं. ए-11013/04/2009/प्रशा. 3--राष्ट्रपति जी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नियमित वैयक्तिक सहायक, श्री राकेश रोशन को योजना आयोग के सदस्य (डॉ. सौमित्र चौधरी) के निजी स्टाफ में पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/-) तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के वेतनमान में प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर सह-सत्रावसानी प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 14.02.2012 के पूर्वाह्न से सदस्य महोदय की इच्छानुसार अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एच. फलतुअल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 मार्च 2012

सं. ए-32013/01/2011-प्रशा.3--राष्ट्रपति, जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 2012 के का.ज्ञा. सं. 2/4/2011-सीएस-II(ए) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के चयन सूची वर्ष 2011 के लिए वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड (पी.बी.-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) में नियमित नियुक्ति हेतु उनका नाम शामिल किए जाने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्रीमती सुधा राजगोपालन, नियमित प्रधान निजी सचिव, योजना अयोग को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 16.02.2012 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

टी. नन्द कुमार, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2012

सं. ए-12026/8/2011-प्रशा.-I(वि.का.)--राष्ट्रपति, श्रीमती चम्पा बिष्ट, नियमित वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक (वर्तमान में तदर्थ आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड-I के पद पर कार्यरत) को दिनांक 17 फरवरी 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) और रु. 4,600/- ग्रेड वेतन सहित पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड-I के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वे दिनांक 17 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उनकी परिवीक्षावधि को बढ़ाया भी जा सकता है। उनका ग्रेड में बने रहना परिवीक्षावधि के संतोषजनक समापन तथा पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड-I के ग्रेड में रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं  
विधि सलाहकार (प्रशा.)

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 फरवरी 2012

सं. के. 13023/03/2011-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायविद् श्रीमती बेंगलूर शमा चार इंद्र कला, को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13029/04/2011-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री महिन्द्र सिंह सूललर (2) न्यायविद् श्री राम चन्द गुप्ता

(3) न्यायविद् कुमारी ऋतु बाहरी को उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2012

सं. के. 13018/04/2011-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायविद् डॉ. श्रीमती इन्दिरा शाह, को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. 13017/15/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 2000) को तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनके ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदित करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 13017/3/2010-अ.भा.से.-I--केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं बिहार तथा कर्नाटक सरकारों की सहमति से श्री एच.आर. श्रीनिवासा, भा.प्र.से. (बीएच: 96) की बिहार से कर्नाटक संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 10 सितम्बर, 2011 से आगे और दो वर्ष की अवधि हेतु संवर्ग से अधिकतम सात वर्ष तक दूर रहने देने के अध्यक्षीन, विशेष मामले के तौर पर, अनुकंपा आधार पर जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकेगा, बढ़ाने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी 2012

सं. 03/पी.बी.-I/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री एन.के. खुलबे (जन्म तिथि 15.01.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी. I और III)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. 01/पीएफ/2012--राष्ट्रपति, श्री आनंद सिंह, आई.ए.एस. (केरल : 2000) को वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के व्यक्तिगत सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं। यह नियुक्ति 09 जनवरी, 2012 से पद का कार्यभार लेने की तारीख से पांच (5) वर्षों अथवा मंत्री के कार्यकाल की समान अवधि के आधार पर अथवा मंत्री के व्यक्तिगत सचिव के रूप में उनका कार्य समाप्त होने अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी।

अनूप ढींगरा, अवर सचिव (पीएफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2012

भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद स्थापनाएं

सं. 1/2012 (फा. सं. ए-32012/29/2010-प्रशा.-2)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में निम्न आईआरएस (सी. एंड सी.ई.) अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में गैर कार्यकारी चयन ग्रेड (तदनुसूची 14,300--18,300/- रुपए का संशोधन पूर्व वेतनमान) प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी आईडी सं.	नाम तथा जन्म तिथि	तदर्थ आधार पर एनएफएसजी प्रदान करने की तारीख
1	2	3	4
(श्री/श्रीमती/सर्वश्री)			
1.	963	गौरव सिन्हा 28.06.1976	19.05.2011
2.	1315	के. शिवाकुमार 21.03.1962	01.01.2012
3.	1316	पी. एस. कादुस्कर 17.09.1959	01.01.2012
4.	1317	राम प्रकाश खडेलवाल 20.07.1960	01.01.2012
5.	1318	के. वेंकटरमन रेड्डी 10.06.1961	01.01.2012
6.	1319	अहिबारन 12.07.1958	01.01.2012
7.	1320	शाहला खान 01.01.1962	01.01.2012
8.	1321	खादीरू वीरेन्द्र कुमार सुमन 20.07.1957	01.01.2012
9.	1322	शिओ शंकर माहली 05.03.1959	01.01.2012
10.	1223	मुरारी लाल मीना 10.08.1961	01.01.2012

1	2	3	4
11.	1324	तेज कुमार सामंत 13.11.1960	01.01.2012
12.	1326	अरविंद कुमार सिंह 07.07.1959	01.01.2012
13.	1327	मदन लाल मीना 30.07.1953	01.01.2012
14.	1328	राम प्रसाद मीना 08.07.1958	01.01.2012
15.	1329	पूनम अम्बास्था 18.12.1960	01.01.2012
16.	1340	मिहिर रंजन 29.05.1961	01.01.2012
17.	1560	दिनेश कांत सोनी 26.10.1954	01.01.2012
18.	1575	लाल सिंह बिष्ट 10.01.1956	01.01.2012
19.	1578	शिव राम गौर 01.01.1953	01.01.2012
20.	1579	दिनेश चंद्र मिश्रा 01.07.1954	01.01.2012
21.	1580	एस पी राव 01.09.1954	01.01.2012
22.	1582	आशुतोष श्रीवास्तव 29.09.1954	01.01.2012
23.	1583	राकेश मोहन मेंडोला 23.05.1954	01.01.2012
24.	1584	योगेन्द्र पाल 10.09.1952	01.01.2012
25.	1586	सुमित के. दास 30.04.1953	01.01.2012
26.	1587	बाबुल लाल सोनी 09.01.1954	01.01.2012
27.	1591	सीता राम शर्मा 04.12.1955	01.01.2012
28.	1594	प्रेम पाल सिंह 01.01.1954	01.01.2012
29.	1662	अमर सिंह 10.05.1953	01.01.2012
30.	982	पंकज द्विवेदी 07.07.1974	01.01.2012
31.	983	आशिमा बंसल 07.04.1973	01.01.2012
32.	984	पी. गिरधर गोपालकृष्णन 28.06.1972	01.01.2012
33.	985	टी टीजू 24.07.1972	01.01.2012
34.	987	मनीष मनी तिवारी 07.10.1973	01.01.2012
35.	989	सचिन जैन 28.03.1974	01.01.2012
36.	990	सत्यजीत मोहंती 24.12.1974	01.01.2012
37.	991	राजेन्द्र कुमार गुप्ता 23.01.1972	01.01.2012
38.	992	रियाज अहमद 05.03.1975	01.01.2012
39.	995	धीरेन्द्र लाल 05.01.1973	01.01.2012
40.	996	राहुल रमेश नांगरे 11.02.1976	01.01.2012
41.	999	सोफिया मार्टिन 27.02.1972	01.01.2012

1	2	3	4
42.	1000	पी टी पोंगीनर 17.07.1968	01.01.2012
43.	1002	राजू शक्तिवल 15.05.1975	01.01.2012
44.	1004	अमरजीत सिंह 10.03.1968	01.01.2012
45.	1006	महफुजुर रहमान 01.07.1969	01.01.2012

चूंकि वरिष्ठता विवादों के चलते समूह 'क' आई आर एस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना संभव नहीं हो सका है अतः पात्र अधिकारियों की प्रदान यह एनएफएसजी न्यायालयों में संबंधित मुकदमों के परिणामों के अधीन है।

आर. सानेहवाल, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. (फा. सं. ए-38012/1/2011-प्रशासन-1क)--राजस्व विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री विजय प्रकाश दिनांक 31 जनवरी, 2012 (अपराह) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2012

सं. 06 (फा. सं. ए-19012/4/2007-प्रशा.-1)--इस विभाग की दिनांक 23.03.2007 की अधिसूचना सं. 32 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, श्री डी. श्रीनिवास, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 92) की राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति को अवधि का 31.03.2013 तक बढ़ाते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 07 (फा. सं. 50/150/2008-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक सुश्री अनुग्रहीत टोप्पो को दिनांक 27.12.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री अनुग्रहीत टोप्पो की तदर्थ नियुक्ति प्रारंभ में 30.06.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी। सुश्री अनुग्रहीत टोप्पो की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी :--

(i) अंतःकालीन व्यवस्था होने के कारण तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई हक प्रदान नहीं करेगी।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठ कोटे अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने तक जारी रहेगी। यदि तदर्थ नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी अर्हता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर इस विभाग द्वारा उन्हें आर्बिट्रि संबंधित संवर्ग में ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख से सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. 09 (फा. सं. ए-38011/12/2011-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (74009) के अधिकारी श्री मुकेश चन्द्र जोशी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 10 (फा. सं. ए-38014/8/2011-प्रशा.-1)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती उमा खट्टर, दिनांक 31 जनवरी, 2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2012

सं. 16 (फा. सं. ए-19011/4/2012-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री अनुजा सारंगी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 85053) को दिनांक 06.02.2012 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयुक्त (समन्वय एवं प्रणाली) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2012

सं. 8/1/2012-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार श्री पी. विनायगम, उप सचिव (सीएसएस), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में 18.01.2012 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै में प्रतिनियुक्ति आधार पर पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए-11019/6/2011-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री आशीष कुमार मुखोपाध्याय को दिनांक 16.01.2012 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, सेन्ट्रल, कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-11019/2/2011-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को दिनांक 04.01.2012 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार (ए एण्ड ई) का कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2012

सं. ए-22015/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वरिष्ठ अनुवादक श्री कमला कांत मिश्र को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए (ग्रेड वेतन) में 10 फरवरी, 2012 के अपराह से तथा अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. पीएफजी (2365) प्रशा-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशक श्री महादेव प्रसाद अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 29 फरवरी, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम इस विभाग की नामावली से काट दिया जाएगा।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (2149)/पेंशन/प्रशा-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर सचिव, श्रीमती मीताली घोष अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 29 फरवरी, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली-110107, दिनांक 22 फरवरी 2012

सं. ए-12023/1/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री विकास कुमार अग्रवाल को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में दिनांक 17.02.2012 से 16.05.2012 तक तीन माह की आगे की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. ए-19011/715/2007-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव, श्री बेनिडिक्ट एक्का अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/753/2010-स्था.-I--महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क (सीजीपीटीडीएम), मुंबई के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, श्री चैतन्य प्रसाद, आईएएस (बिहार : 90) ने दिनांक 29 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 फरवरी 2012

सं. ए-12011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 12.05.2011, 08/09.09.2011 और 07.02.2012, के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/2011-ईओ (एमएम-II) के अनुसरण में श्री गोबिंदा गोपाल मित्रा, (आईसीएस: 1995), निदेशक (लागत), टैरिफ कमीशन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को संयुक्त निदेशक (लागत मूल्यांकन) के रूप में निदेशक के स्तर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड (पीबी-4) 37,400--67,000/- रुपए में ग्रेड पे 8,700/- रुपए सहित उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) में 09.12.2011 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2012

सं. ए-12011/7/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 28 फरवरी, 2012 के आदेश संख्या 13016/2/2012-आई ई एस के अनुसरण में डॉ. के. जी. राधाकृष्णन, आई ई एस : 1984 को दिनांक 29 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) के वेतन बैंड और 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में आगामी आदेशों तक आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 फरवरी 2012

सं. 17013/17/2009-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति), विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2009 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति के लिए चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल है :--

नाम	जन्म तिथि
बिद्युत सरकार	15.12.1965

जोसेफ लुइखम, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2012

## शुद्धि पत्र

सं. 17013/04/2009-आईएफएस-II--दिनांक 24 नवम्बर, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा 2 (घ) में छपे नाम "श्री अतुल कुमार मिश्रा" के स्थान पर "श्री अतुल कुमार मिश्रा" पढ़ा जाए।

जोसेफ लुइखम, अवर सचिव

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. ए-12025/244/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. योगेश को 01 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती है। डॉ. योगेश को केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/223/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अजीता गिल को दिनांक 21.2.2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में (15,600--39,100/-) + 5,400/- रुपये (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थाई क्षमता में नियुक्त करती हैं। डॉ. अजीता गिल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. अजीता गिल नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2012

सं. ए-12025/273/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ओम प्रकाश मीना को 08 मई, 2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. ओम प्रकाश मीना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/55/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीप्ति शर्मा को दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक (वेतनमान 15,600--39,100/-) + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन (पीबी-3) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. दीप्ति शर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/11/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. असरार अहमद खान हाफिजुल्लाह को 25 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. असरार अहमद खान हाफिजुल्लाह को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना, मुंबई के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 29 फरवरी 2011

सं. ए-12025/09/2010-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रीति जैन को दिनांक 23 जून, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में शरीर क्रिया विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2012

सं. ए-22014/1/2012-स्था.-III--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 27.12.2011 के आदेश संख्या 12016/5/2011-एसएसएस के अनुसरण में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों (अन्वेषक ग्रेड-I), समूह 'ख' राजपत्रित पद, के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्र. सं.	नाम	अन्वेषक ग्रेड-I (तदर्थ आधार पर) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री गगन श्रीवास्तव	30.12.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री श्रीकांत प्रसाद	30.12.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अभय नाथ	30.12.2011 (पूर्वाह्न)
4.	श्री बी. के. बर्नवाल	17.01.2012 (पूर्वाह्न)

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2012

सं. ए-19012/1/2012-ईए--वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 19.01.2012 के का.आ. सं. 13016/2/2011-आईईएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी श्री अमर सिंह (आईईएस : 84) को वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपये) + 10,000/- रुपये ग्रेड पे

में, 01.02.2012 के पूर्वाह्न से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

#### संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2012

सं. एफ-27-15/2009-पुस्तकालय--राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के संगम ज्ञापन के नियम 3 और 6 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, प्रो. एच. एस. शिवप्रकाश, जिन्होंने अपने सेवाकाल की शेष अवधि अर्थात् जनवरी, 2013 तक की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सदस्य के रूप में सुश्री इरा पाण्डेय को नामित करती है।

वी. वेणु, संयुक्त सचिव

#### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2012

सं. 36-6/2008-ई-6/ई-1--राष्ट्रपति, असम (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, जन संचार विभाग, सिलचर के अधिष्ठाता प्रो. ज्ञान प्रकाश पाण्डेय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में तीन वर्ष की अवधि के लिए 10 फरवरी, 2012 से लघुकालिक संविदा आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्त करती हैं।

2. प्रो. पाण्डेय वर्तमान नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों के पात्र होंगे।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

#### महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. 5-1/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/6/2011-ई.ओ (एम.एम. I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत, आई.ओ.एफ.एस. (1990) को पे बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपये) ग्रेड पे 8,700/- रुपये पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में पांच वर्ष या अगला आदेश होने तक जो भी पहले हो, दिनांक 06.01.2012 के पूर्वाह्न से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2012

सं. 3-2/2010-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.01.2012 के आदेश संख्या 4/37/2011-ई.ओ (एस.एम. I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, सुश्री सरिता मित्तल सी.एस.एस. (एस.जी.एस.एल. : 96)

को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में (37,400--67,000/- रुपये) (पी.बी.-4) + 10,000/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 01 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से अगले 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

#### पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 2012

सं. ए-22012/4/2011-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री आर. राजशेखरन, नियमित आशुलिपिक ग्रेड-सी, को पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + 4,800/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 5.12.2011 (पूर्वाह्न) से पोत परिवहन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डी. के. पूर्वे, अवर सचिव

सं. ए-22012/4/2011-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन सूची 2002 के निम्नलिखित नियमित सहायकों को पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + 4,800/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 9.11.2011 (पूर्वाह्न) से पोत परिवहन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

(क) श्रीमती आशा रानी शर्मा

(ख) श्रीमती अनीता कारवाल

(ग) श्री जे. एस. यादव

(घ) श्रीमती स्वतंत्र लता

2. यह तदर्थ प्रौन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सी.एस.-I (एस.) दिनांक 4.10.2011 में निहित शर्तों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार की जाती है।

डी. के. पूर्वे, अवर सचिव

सं. ए-22012/4/2011-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + 4,800/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांकों से पोत परिवहन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अनुभाग अधिकारियों के नाम	चयन सूची	अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री रामेश्वर कुमार	2007	18.11.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पाल रविन्द्रन के.	2007	16.11.2011 (पूर्वाह्न)



1	2	3	4
3.	श्री विरेन्द्र कुमार	2007	17.11.2011 (पूर्वाह्न)
4.	श्री नरेंद्र कुमार	2007	16.11.2011 (पूर्वाह्न)
5.	श्री राजीव कुमार निगम	2008	02.11.2011 (अपराह्न)
6.	श्री डी. के. मिन्ना प्रभु	2008	04.11.2011 (अपराह्न)

डी. के. पूर्वे, अवर सचिव

सं. ए-22012/4/2011-स्था.--राष्ट्रपति, पोत परिवहन मंत्रालय के श्रीमती अनीता कारवाल, अनुभाग अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1-ए) के तहत दिनांक 13.1.2012 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते हैं।

डी. के. पूर्वे, अवर सचिव

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2012

सं. 01/2012. फा. सं. 38012/1/2008-प्रशा. I-- राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह-क) सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अगले आदेशों तक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सहायक निदेशक श्रेणी-I/सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	सहा. निदेशक-I/सहा. अधि.अधि. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
----------	-----	--

1	2	3
	श्री/सुश्री	
1.	के. के. शर्मा	30.12.2011
2.	रेहाना सईद	30.12.2011
3.	कविता झा	30.12.2011
4.	मो. अनवर	30.12.2011
5.	किशोर कुमार	30.12.2011
6.	शिशिर प्रकाश	30.12.2011
7.	राय सिंह तोमर	30.12.2011
8.	श्रीमती दीपा खन्ना	30.12.2011
9.	बी. एस. मेंहदीरता	30.12.2011
10.	फारूक इकबाल	30.12.2011
11.	श्रीमती जयता चटर्जी	30.12.2011
12.	भरत गुप्ता	30.12.2011
13.	श्रीमती शीता सुमीत जैन	30.12.2011
14.	राघविंदर सिंह	30.12.2011
15.	एम. एम. नजीर	30.12.2011
16.	श्रीमती सुमन बाला	30.12.2011
17.	बुधबीर सिंह	30.12.2011

1	2	3
18.	अनिल रघुवंशी	30.12.2011
19.	गुरजीत मेढ़ी	30.12.2011

2. अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2012

सं. 08/12 फा. सं. 20/5/2012-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री मनोरंजन कुमार, आईईएस (1986) को 14 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों के होने तक 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड (पीबी-4) एवं 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन सहित, विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2012

सं. 1/2012 फा. सं. 11/5/2007-प्रशा. I--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 की संख्या 22) की धारा 5(1) और धारा 19(1) की शर्तों के अनुसार यह जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की समेकित सूची है जिन्हें जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/स्कन्धों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है:--

क्र. सं.	नियुक्त किए गए सीपीआईओ के नाम एवं पदनाम	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्री/श्रीमती		सर्वश्री/श्री/श्रीमती/कुमारी
1.	एल.पी. शर्मा, अवर सचिव (प्रशा.)	प्रशासन अनुभाग एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. व. सेल	खाट्चिन लांगेल, उप-सचिव (समन्वय एवं प्रशासन)
2.	अरुण कुमार, अवर सचिव (समन्वय)	समन्वय अनुभाग	- वही -
क.	अरुण कुमार, अवर सचिव (संसद)	(संसद)	रामस्वरूप, उप-सचिव (स्वयं-III एवं सामान्य प्रशासन), एफबीपी के स्थापना संबंधी मामलों को छोड़कर
3.	अशोक कुमार गुप्ता, अवर सचिव (सा.प्र.)	सामान्य प्रशासन एवं सीआर अनुभाग	
4.	जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव (स्था. III)	स्थापना -III अनुभाग	
5.	पी.एस. चक्रवर्ती, अवर सचिव (डब्ल्यूबी)	जल निकाय अनुभाग	चरुल बसवाल, निदेशक (स्था.), सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के पुनर्गठन संबंधी मामलों को छोड़कर

1	2	3	4	1	2	3	4
6.	नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव (स्था. I)	स्थापना-I अनुभाग				सहित गंगा बेसिन अनुभाग से संबंधित कार्य	सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित मामलों को छोड़कर
7.	विनीत अब्राहम, अवर सचिव (सीजीडब्ल्यूबी)	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड डेस्क					
8.	डी.के. पालीवाल अवर सचिव (पीएसयू एवं पीपीपी)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अनुभाग और पीपीपी सेल					
9.	नन्दन. एन., अवर सचिव (जीडब्ल्यू)	भूजल डेस्क	राजीव कुमार, निदेशक (जीडब्ल्यू)	25.	अनन्त राम, अनुभाग अधिकारी (परियोजना)	परियोजना विंग-- सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को छोड़कर	टी. डी. शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीआर) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित मामलों सहित
10.	दलबीर कौर बाहरी, अनुभाग अधिकारी (डब्ल्यूएस)	आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक					
11.	सुरेश विज, अनुभाग अधिकारी (आईडी)	अवसंरचना विकास	श्रीकान्त पाण्डे, निदेशक (सतर्कता एवं ई-गवर्नेंस सीडब्ल्यूसी और सीजी- डब्ल्यूबी के पुनर्गठन संबंधी मामले एवं एफबीपी के स्थापना संबंधी मामले सहित	26.	अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता (एमआई)	लघु सिंचाई	एस. एल. जैन, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एमआई)
12.	के.के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)	सतर्कता अनुभाग		27.	डॉ. समीर चटर्जी, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (सिन्धु)	सिंधु विंग	जी. अरंगनाथन, आयुक्त (सिन्धु)
13.	सुरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (ई-गवर्नेंस सेल)	ई-गवर्नेंस सेल		28.	ममता सक्सेना, डीडीजी (एमआई सांख्यिकी)	लघु सिंचाई सांख्यिकी	विजय कुमार, अपर महानिदेशक
14.	नगेन्द्र कुमार-II, अनुभाग अधिकारी (जल गुणवत्ता)	जल गुणवत्ता मामले		29.	विजय श्रीवास्तव, अवर सचिव (वित्त)	वित्त विंग--वित्त डेस्क और बजट अनुभाग	एस. के. ठाकुर, निदेशक (वित्त)
15.	शशि पाल, अवर सचिव (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	सूचना, शिक्षा एवं संचार सेल	अनूप सेठ, निदेशक (स्था. II)	30.	वी. के. बालायन, अवर सचिव (ईए)	बाह्य सहायता डेस्क- विदेश प्रशिक्षण एवं द्विपक्षीय मामलों सहित	विजय कुमार, सलाहकार (आर्थिक)
16.	राजेन्द्र कुमार ओझा, अवर सचिव (स्था. II)	स्थापना II अनुभाग		31.	आर.ए. प्रसाद, उप लेखा नियंत्रक	प्रधान लेखा कार्यालय और वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय) और रोकड़ अनुभाग से संबंधित मामले	
17.	कर्म बीर सिंह, उप निदेशक (रा.भा.)	हिन्दी अनुभाग	रमेशबाबू अणियेरी, निदेशक (रा.भा.)	32.	ओ.के. त्यागी, उप लेखा नियंत्रक (सीडब्ल्यूसी)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीडब्ल्यूसी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीएसएमआरएस) से संबंधित मामले	हेमन्त जैन, लेखा नियंत्रक
18.	एन. मुखर्जी, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बी और बी)	ब्रह्मपुत्र एवं बराक विंग के जल विज्ञानी परियोजना मामले।	नरेन्द्र कुमार, आयुक्त (बी और बी)	33.	बी. दास, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफबीपी)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एफबीपी) से संबंधित मामले	
19.	आर.के. सुंड, अवर सचिव (बी और बी)	जलविज्ञानी परियोजना के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बराक के मामले।		34.	जे. थोथाधरी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीडब्ल्यूपीआरएस)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीडब्ल्यूपीआरएस) से संबंधित मामले	
20.	ए.एस.पी. सिन्हा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (गंगा)	गंगा विंग	देवेन्द्र शर्मा, आयुक्त (गंगा)	35.	डी. पी. शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीजीडब्ल्यूबी) से संबंधित मामले	
21.	राविश अली, अवर सचिव (पीपी)	नीति एवं आयोजना अनुभाग	एम.के. सिन्हा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी)				
22.	एम. सी. चान्द, उप-सचिव (सीएडी)	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन विंग	जी. एस. झा, आयुक्त, (सीएडीडब्ल्यूएम)				
23.	असित चतुर्वेदी, उपायुक्त (बीएम)	परियोजना विंग-- बेसिन प्रबंधन अनुभाग और नदियों को आपस में जोड़ना/ राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से संबंधित कार्य					
24.	अजय कुमार, अवर सचिव (बीएम)	परियोजना विंग-- सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	श्री भूपिन्दर सिंह, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम), सरदार सरोवर निर्माण				

टिप्पणी :- यदि किसी सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी के कार्य को परिवर्तित किया जाता है अथवा मौजूदा सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी के स्थान पर कोई नया अधिकारी कार्यभार संभालता है तो वह स्वयंमेव आवंटित कार्य का सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी बन जाएगा/जाएगी। यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी अवकाश पर जाता है तो संबंधित लिंक अधिकारी या वह अधिकारी, जिसे संबंधित डिविजन/शाखा

प्रमुख के पद का प्रभार सौंपा गया है, स्वयंमेव आवंटित कार्य का सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी बन जाएगा।

(2) श्री एल. पी. शर्मा, अवर सचिव (प्रशा.) अब से मंत्रालय (खास) में सूचना के अधिकार से संबंधित मामलों में नोडल अधिकारी होंगे। उनका पता एवं दूरभाष संख्या नीचे दर्शाया गया है :--

श्री एल. पी. शर्मा  
अवर सचिव (प्रशा.)  
कमरा संख्या 424, श्रम शक्ति भवन,  
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष संख्या-23738126

खाटचिन लांगेल, उप-सचिव

#### शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती विनोद बाला जिंदल को शहरी विकास मंत्रालय में मौजूदा एक रिक्त पद पर उप-सचिव के पद पर दिनांक 19.12.2011 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2012

सं. ए-22012/1/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री आनन्द सिंह भाल, (आईईएस : 1985) को 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में शहरी विकास मंत्रालय में दिनांक 07.02.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2012

सं. के-11011/22/2004-डीडीआईए-भाग-II--राष्ट्रपति, श्री महेंद्र कुमार गुप्ता, आई.आर.पी.एस. (1998), को दिल्ली विकास प्राधिकरण (उप सचिव स्तर) में आयुक्त (कार्मिक) के पद पर उनके द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, या जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एन. टी. जोसफ, अवर सचिव (डीडी-Iए)

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2012

सं. ए-32014/01/2008-प्रशा. I (पार्ट)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सी.एस.-I (एस) दिनांक 19.1.2012 के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी'/राजपत्रित) (वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रु. ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के पद पर इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 30.06.2012 तक के लिए बढ़ाती है :--

क्र. सं.	नाम	चयन सूची वर्ष	तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की बढ़ाई गई नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	बी. डी. शर्मा	1992	30.6.2012
2.	जे. के. कश्यप	1992	29.2.2012
3.	एम. आर. चंदवारा (अनु. जा.)	1992	30.6.2012
4.	एस. पी. गोयल	1992	30.6.2012
5.	सुनीता शर्मा	1992	30.6.2012
6.	आई. डी. शर्मा	1993	31.5.2012
7.	एन. के. जोशी	1993	30.6.2012
8.	नरेश कुमार	1994	30.6.2012
9.	ओम प्रकाश (अनु. जा.)	1994	30.6.2012
10.	रीता सिंह	1994	30.6.2012
11.	शीश राम (अनु. जा.)	1994	30.6.2012
12.	विजय कुमार	1995	30.6.2012
13.	सरोज बाला भाटिया	1995	30.6.2012
14.	बी. सी. त्रिपाठी	1995	30.6.2012
15.	योगेन्द्र बी. रनदिवे (अनु. जनजाति)	1995	30.6.2012
16.	अनिल कुमार शर्मा	1995	30.6.2012
17.	बी. टी. चिचुलकर (अनु. जनजाति)	1998	30.6.2012
18.	चन्द्र कान्ता मेवार	2000	30.6.2012

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :--

(क) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.6.2012 तक अथवा उनके सेवा-निवृत्त होने अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।

(ख) तदर्थ नियुक्ति नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के लिए नियमित नियुक्ति की चयन-सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ग) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक बनी रहेगी। तदर्थ अभ्यर्थियों के इन किन्हीं भी दो वर्गों में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारियों को आवंटित संबंधित संवर्ग एककों में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी के) पद पर कार्यग्रहण करने पर उनकी उपलब्धता की तारीख से सहायक के संवर्ग में पदावनत कर दिया जाएगा।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 22nd February 2012

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Bhagwat Prasad Roy, Deputy Director (OL) of Central Secretariat Official Language Service (CSOLS), as Deputy Director (OL) in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 16th February 2012 until further orders.

R. MYTHILI, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st March 2012

No. RS/20/1/2012/11-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Agnes Momin George, Joint Secretary, retired from Service with effect from the afternoon of 29th February, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th February 2012

No. A-19011/04/2009-Ad.-I—The President is pleased to appoint Ms. Vandana Aggarwal an officer of the Non Functional Selection Grade of Indian Economic Service (1986 batch) posted as Director in the Cabinet Secretariat as Adviser in Senior Administrative Grade (SAG) in Cabinet Secretariat by temporarily transferring an SAG-level post of the Indian Economic Service (IES) from the Department of Disinvestment to the Cabinet Secretariat vide Department of Economic Affairs Order No. P-1(PM2)/2012 (F. No. 13016/2/2011-IES) dated 10.02.2012, read with Order No. P-1/2012 dated 19.01.2012, w.e.f. the forenoon of 10th February, 2012.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th February 2012

No. A-35013/1/2011-Ad. Vol.-II—The President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar B. K. as Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the National Security Council Secretariat on contract basis with effect from the forenoon of 23rd February 2012, initially for a period of three years (including one year probation), or until further orders, whichever is earlier.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th February 2012

No. F-6(2036)-2007-Adm.-I—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-12034/3/2007-Admn.-I dated 19th September, 2007 and in pursuance of Department

of Personnel & Training's Communication No. 12/11/2006-EO(MM-I), dated 25th January, 2012, the term of Ccentral Deputation Tenure of Ms. Namita Mehrotra, IRAS (91), Director, Planning Commission has been extended for a period of one year beyond 15.11.2011 or until further orders, whichever is earlier.

2. This issues in supersession of Planning Commission's Notification of even number dated 21st November, 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 29th February 2012

No. A-19016/296/2009-Admn.-III—Consequent upon his promotion to the grade of Joint Commissioner of Income Tax (OSD) on ad hoc basis, the President is pleased to terminate the co-terminus deputation services of Shri Vikas K. Suryawanshi as Private Secretary to the Member (Dr. Narendra Jadhav), Planning Commission w.e.f. the afternoon of 29th February, 2012.

2. Shri Vikas K. Suryawanshi is directed to report to his parent office i.e. the Office of Chief Commissioner of Income Tax (HQ)-X, Room No. 132, 1st Floor, Aayakar Bhavan, Churchgate, Mumbai-400020.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi, the 16th February 2012

No. A-11013/04/2009-Admn.-III—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Raushan, a regular Personal Assistant of Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment as 1st P.A. in the Pay Scale of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-), with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Personal Staff of Member (Dr. Saumitra Chaudhuri), Planning Commission on co-terminus deputation basis w.e.f. 14.02.2012 (FN) till the Member desires or demits office, whichever is earlier.

H. PHALTUAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 1st March 2012

No. A-32013/01/2011-Adm.-III—Consequent upon inclusion of her name for appointment in the grade of Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of CSSS on regular basis for the Select List Year 2011 in PB-3; Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- and nomination to the cadre of Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 2/4/2011-CS-II(A), dated 16th February, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Sudha Rajagopalan, a regular Principal Private Secretary of this Commission as Sr. PPS of CSSS on regular basis in Planning Commission w.e.f. 16.02.2012 (FN).

T. NANDA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 17th February 2012

No. A-12026/8/2011-Admn.-I(LA)—The President is pleased to appoint Smt. Champa Bisht, a regular Senior Library Information Assistant, (presently working as Librarian Grade-I on ad hoc basis) as Librarian Grade-I on regular basis, in the Pay Band-2, (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. the forenoon of the 17th February, 2012 or until further orders.

2. She will be on probation for a period of two years with effect from the forenoon of 17th February, 2012. Her probation period may be extended at the discretion of the Competent Authority, if necessary. Her continuance in the grade will be subject to satisfactory completion of the probation and availability of Vacancy in the grade of Librarian Grade-I.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. and Legal Adviser (Admn.)

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 21st February 2012

No. K-13023/03/2011-US-I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Smt. Bangalore Shamachar Indrakala, to be an Additional Judge of the Karnataka High Court, for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her Office.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

No. K-13029/04/2011-US-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Justice Shri Mehinder Singh Sullar, (2) Justice Shri Ram Chand Gupta, and (3) Justice Kumari Ritu Bahri, Additional Judges of the Punjab and Haryana High Court, as Judges of that High Court in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their Offices.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

The 28th February 2012

No. K-13018/04/2011-US-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Indira Shah, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court, for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her office.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
& PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 27th February 2012

No. 13017/15/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Chhattisgarh, the Central Govt. hereby accords approval for Inter Cadre deputation of Shri Santosh Kumar Misra, IAS (TN : 2000) from Tamil Nadu cadre to Chhattisgarh cadre for a period of five years with effect from the date of his reporting for duty.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 13017/3/2010-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Bihar and Karnataka, the Central Govt. hereby accords approval for extension of Inter Cadre Deputation of Shri H. R. Srinivasa, IAS (BH : 96) from Bihar cadre to Karnataka cadre for a further period of two years beyond 10th September, 2011 i.e. subject to the maximum of 7 years away from the cadre, on compassionate grounds as a special case, not to be quoted as precedent.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th February 2012

No. 03/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri N. K. Khulbey (DoB : 15.01.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st January, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Admn. Officer (PB-I&III)

New Delhi, the 23rd February 2012

No. 01/PF/2012—The President is pleased to appoint Shri Anand Singh, IAS (Kerala : 2000) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for External Affairs, Shri E. Ahamed in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from 09th January 2012 for a period of five (5) years with effect from the date of taking over charge of the post or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

ANOOP DHINGRA, Under Secy. (PF)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(DEPARTMENT OF REVENUE)**  
**(CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS)**

New Delhi, the 17th January 2012

**INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE**  
**ESTABLISHMENTS**

No. 01/2012 (F. No. A-32012/29/2010-Ad.-II)—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (NFSG) in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8,700/- (corresponding to the Pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300—18,300/-) to the following IRS (C&CE) Officers in Junior Administrative Grade in the Central Board of Excise & Customs, on adhoc basis, with effect from the date mentioned against their names and until further orders:—

Sl. No.	Employee's ID No.	Name & date of birth	Date of effect of grant of NFSG, on adhoc basis
1	2	3	4
		(S/Shri/Ms.)	
1.	963	Gaurav Sinha 28.06.76	19.05.2011
2.	1315	K. Sivakumar 21.03.62	01.01.2012
3.	1316	P. S. Kaduskar 17.09.59	01.01.2012
4.	1317	Ram Prakash Khandelwal 20.07.60	01.01.2012
5.	1318	K. Venkatram Reddy 10.06.61	01.01.2012
6.	1319	Ahibaran 12.07.58	01.01.2012
7.	1320	Shahla Khan 01.01.62	01.01.2012
8.	1321	Khaderoo Virendra Kumar Suman 20.07.57	01.01.2012
9.	1322	Sheo Shankar Mahli 05.03.59	01.01.2012
10.	1223	Murari Lal Meena 10.08.61	01.01.2012
11.	1324	Tej Kumar Samant 13.11.60	01.01.2012
12.	1326	Arvind Kumar Singh 07.07.59	01.01.2012
13.	1327	Madan Lal Meena 30.07.53	01.01.2012
14.	1328	Ram Prasad Meena 08.07.58	01.01.2012
15.	1329	Poonam Ambastha 18.12.60	01.01.2012
16.	1340	Mihir Ranjan 29.05.61	01.01.2012
17.	1560	Dinesh Kant Soni 26.10.54	01.01.2012
18.	1575	Lal Singh Bist 10.01.56	01.01.2012
19.	1578	Shiv Ram Gaur 01.01.53	01.01.2012
20.	1579	Dinesh Chandra Misra 01.07.54	01.01.2012
21.	1580	S. P. Rao 01.09.54	01.01.2012

1	2	3	4
22.	1582	Ashutosh Srivastava 29.09.54	01.01.2012
23.	1583	Rakesh Mohan Maindola 23.05.54	01.01.2012
24.	1584	Yogendra Pal Badhawar 10.09.52	01.01.2012
25.	1586	Sumit K. Das 30.04.53	01.01.2012
26.	1587	Babul Lal Soni 09.01.54	01.01.2012
27.	1591	Sita Ram Sharma 04.12.55	01.01.2012
28.	1594	Prem Pal Singh 01.01.54	01.01.2012
29.	1662	Amar Singh 10.05.53	01.01.2012
30.	982	Pankaj Dwivedi 07.07.74	01.01.2012
31.	983	Ashima Bansal 07.04.73	01.01.2012
32.	984	Pai Giridhar Gopalkrishnan 28.06.72	01.01.2012
33.	985	T. Tiju 24.07.72	01.01.2012
34.	987	Manish Mani Tiwari 07.10.73	01.01.2012
35.	989	Sachin Jain 28.03.74	01.01.2012
36.	990	Satyajit Mohanty 24.12.74	01.01.2012
37.	991	Rajendra Kumar Gupta 23.01.72	01.01.2012
38.	992	Reyaz Ahmed 05.03.75	01.01.2012
39.	995	Dhirendra Lal 05.01.73	01.01.2012
40.	996	Rahul Ramesh Nangare 11.02.76	01.01.2012
41.	999	Sophia Martin 27.02.72	01.01.2012
42.	1000	P. T. Pongener 17.07.68	01.01.2012
43.	1002	Raju Sakthivel 15.05.75	01.01.2012
44.	1004	Amarjeet Singh 10.03.68	01.01.2012
45.	1006	Mahfuzur Rahman 01.07.1969	01.01.2012

2. Since it has not been possible to finalise the Seniority List of Group 'A' IRS (C&CE) Officers due to continuing seniority disputes, this grant of NFSG to the eligible Officers is subject to outcome of related Court Cases.

R. SANEHWAL  
Director

New Delhi, the 31st January 2012

F. No. A.-38012/1/2011-AD.-IA—Shri Vijay Prakash, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, posted as Principal Private Secretary in the Department of

Revenue is retiring from Government Service on 31st January, 2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th January 2012

No. 06 (F. No. A.-19012/4/2007-Ad.-I)—In continuation of this Department's Notification No. 32 dated 23.03.2007, the President is pleased to extend the deputation tenure of Shri D. Srinivas, IRS (IT : 92) as Director in the Department of Revenue upto 31.03.2013.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 24th January 2012

No. 07 (F. No.50/150/2008-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Ms. Anugrahit Toppo, a regular Assistant of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 27.12.2011 (FN) and until further orders.

2. The ad-hoc appointment of Ms. Anugrahit Toppo would initially be upto 30.06.2012 or until further orders. The ad-hoc appointment of Ms. Anugrahit Toppo will be subject to the following terms and conditions:-

- (i) Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in the Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of ad-hoc appointee is not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular Officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them by this Department.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st February 2012

No. 09 (F. No. A.-38011/12/2011-Ad.-I)—Shri Mukesh Chandra Joshi, an Officer of the Indian Revenue Service (74009), posted as Chairman, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.01.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 10 (F. No. A.-38014/8/2011-Ad.-I)—Smt. Uma Khatter, Section Officer, an Officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.01.2012(AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 10th February 2012

No. 16 (F. No. A.-19011/4/2012-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Ms. Anuja Sarangi, IRS (IT : 85053), as Commissioner (Coordination & Systems), CBDT with effect from 06.02.2012 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 22nd February 2012

No. 8/1/2012-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri P. Vinayagam, Deputy Secretary (CSS), Department of Financial Services, Ministry of Finance to the post of Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Madurai on deputation basis, in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period of three years w.e.f. 18.01.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 27th February 2012

No. A-11019/6/2011-EG.—The President is pleased to appoint Shri Asish Kumar Mukhopadhyay of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the Office of the Director General of Audit, Central, Kolkata in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay of Rs. 6,600/-) with effect from 16.01.2012 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

No. A-11019/6/2011-EG.—The President is pleased to appoint Shri Virender Kumar Gupta of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (A&E) Punjab, Chandigarh in the scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay of Rs. 6,600/-) with effect from 04.01.2012 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 28th February 2012

No. A-22015/2/2010-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Kamal Kant Mishra, Senior Hindi Translator

as Assistant Director (OL) (ad hoc) in the Department of Expenditure, Ministry of Finance in the Pay Band (3) Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- (G.P.) on purely ad hoc basis with effect from the afternoon of 10th February, 2012 and until further orders.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

The 29th February 2012

No. PFG (2365) Admn. I—Shri Mahadev Prasad, Assistant Director of CSS (OL) Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 29th February, 2012.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

No. PFG (2149)/Pension/Ad. I—Smt. Meetali Ghosh, Under Secretary of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 29th February, 2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

---

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi-110107, the 22nd February 2012

No. A-12023/1/2010-E.I—The President is pleased to appoint Shri Vikas Kumar Agrawal as Protocol Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, on ad hoc deputation basis for a further period of three months with effect from 17.02.2012 to 16.05.2012 or until further orders, whichever is earlier.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 29th February 2012

No. A-19011/715/2007-E. I—On attaining the age of superannuation Shri Benedict Ekka, Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 29th February, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19011/753/2010-E.I—Consequent on his appointment as Controller General, Patents, Designs and

Trademarks (CGPTDM), Mumbai, Shri Chaitanya Prasad, IAS (BH : 90) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 29th February, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

---

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 22nd February 2012

No. A-12011/04/2011-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 9/3/2011-EO (MM. II), dated 12.05.2011, 08/09.09.2011 and 07.02.2012, the President is pleased to appoint Shri Gobinda Gopal Mitra (ICAS : 1995), Director (Cost) in Tariff Commission, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry as Joint Director (Cost Evaluation) at the level of Director in the Pay Band (PB-4), Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- on central deputation in the office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) an attached office of Department of Fertilizers for a period of five years w.e.f. 09.12.2011 (FN), the date of his taking over charge of the post or until further orders whichever is event takes place earlier.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

---

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 1st March 2012

No. A-12011/7/2009-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. 13016/2/2012-IES dated 28th February, 2012, the President is pleased to appoint Dr. K. G. Radhakrishnan, IES : 1984 as Economic Adviser in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 29th February, 2012 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

---

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 17th February 2012

No. 17013/17/2009-IES. II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of West Bengal to the Indian Forest Service for the year 2009 containing the name of the following officer of the State Forest Service



of West Bengal towards filling up of promotion quota vacancies available in West Bengal Cadre of the Indian Forest Service.

Name	Date of Birth
Bidyut Sarkar	15.12.1965

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 21st February 2012

#### CORRIGENDUM

No. 17013/04/2009-IFS-II—In Para 2(d) of the Notification of even No. dated 24th November, 2011, the name printed as “Shri Atul Mumar Mishra” may be read as “Shri Atul Kumar Mishra”.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 23rd February 2012

No. A. 12025/244/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Yogesh in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. PB-3 (15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 1st February 2007 until further orders. Dr. Yogesh is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No. A. 12025/223/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ajita Gill to in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. PB-3 (15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21.02.2007 until further orders. Dr. Ajita Gill is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Ajita Gill shall be on probation for two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

The 27th February 2012

No. A. 12025/273/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Om Prakash Meena in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. PB-3 (15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from

afternoon of the 8th May 2008 until further orders. Dr. Om Prakash Meena is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No. A. 12025/55/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dipti Sharma in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. (15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) PB-3 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21.12.2011 until further orders. Dr. Dipti Sharma is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. She will be on probation period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No. A. 12025/11/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Asrar Ahmad Khan Hafeezullah to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. PB-3 (15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25.10.2010 until further orders. Dr. Asrar Ahmad Khan Hafeezullah is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 29th February 2012

No. A. 12025/09/2010-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Preeti Jain, to the post of Assistant Professor in the specialty of Physiology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23rd June, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd February 2012

No. A-22014/1/2012-Estt.III—In pursuance of the Ministry of Statistics & programme Implementation Order No. 12016/5/2011-SSS dated 27.12.2011, the following officers of Subordinate Statistical Services (SSS) have assumed charge of the post of Senior Statistical Officers (Investigator Grade I) a Group ‘B’ Gazetted post in the

Department of Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against their name:—

S.N. Name	Date of assumption of charge on the post of Investigator Grade-I (On ad hoc basis)
1. Sh. Gagan Srivastava	30.12.2011 (FN)
2. Sh. Srikant Prasad	30.12.2011 (FN)
3. Sh. Ahbai Nath	30.12.2011 (FN)
4. Sh. B.K. Barnawal	17.01.2012 (FN)

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 8th February 2012

No. A. 19012/1/2012-EA.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' office order No. 13016/2/2011-IES dated 19.01.2012, the President is pleased to appoint Shri Amar Singh (IES : 84), a Senior Administrative Grade level officer of Indian Economic Service (IES), as Adviser in the Directorate of Economics & Statistics, in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from the forenoon of 01.02.2012.

A. K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 22nd February 2012

No. F. 27-15/2009-Lib.—In continuation of notification of even number dated 19th January, 2010 and in accordance with the provisions of Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Raja Rammohan Roy Library Foundation, the Central Government hereby nominates Ms. Ira Pande as a member of the RRRLF Board in place of Prof. H.S. Shivaprakash, who has resigned, for the remaining period i.e. upto January 2013.

V. VENU, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

New Delhi, the 14th February 2012

No. F. 36-6/2008-A.E. 6/A.E.1—The President is pleased to appoint Prof. Gyan Prakash Pandey, Dean, Deptt. of Mass Communication, Assam (Central) University, Silchar, as Director in the Directorate of Adult Education (DAE)

under the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) on short term contract basis with effect from 10th February 2012 for a period of three years.

2. Prof. Pandey will be entitled to usual pay and allowances as per the existing rules.

AMARJEET SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd January 2012

No. 5-1/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 6/6/2011 EO/(MM-I) dated 02.12.2011, the President is pleased to appoint Shri Rajendra Prasad Pant, IOFS (1990) as Director in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay Rs. 8,700/- in the Ministry of Women and Child Development for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier, with effect from the forenoon of 06.01.2012.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 13th February 2012

No. 3-2/2010-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/37/2011 EO/(SM-I) dated 13.01.2012, the President is pleased to appoint Ms. Sarita Mittal, CSS (SGSL : 96) as Joint Secretary and Financial Adviser in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Women and Child Development for a period of five years with effect from the forenoon of 01.02.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 17th February 2012

No. A-22012/4/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. R. Rajsekharan, Stenographer Grade "C" of CSSS as Section Officer in Ministry of Shipping in the scale of Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (GP) with effect from 05.12.2011 (FN).

D. K. PURBEY, Under Secy.

No. A-22012/4/2011-Estt.—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS in the scale of Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (GP) Ministry of Shipping as Section Officer on Ad hoc basis with effect from the forenoon of 9th Nov. 2011 :—

1. Smt. Asha Rani Sharma
2. Smt. Anita Karwal

3. Sh. J. S. Yadav

4. Smt. Swatantra Lata.

2. The above said ad hoc promotion is subject to the conditions as laid down vide DoP & Ts OM No. 6/5/2011-CS.I(S) dated 4th October, 2011 and other orders issued from time to time.

D. K. PURBEY, Under Secy.

No. A-22012/4/2011-Estt.—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS as Section Officer in Ministry of Shipping in the scale of Pay Band 2 Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (GP) with effect from the dates mentioned against them :—

Sl. No.	Name of Section Officer	Select List Year	Date of appointment as Section Officer
S./Shri/Smt.			
1.	Rameshwar Kumar	2007	18.11.2011 (FN)
2.	Pal Ravindran K.	2007	16.11.2011 (FN)
3.	Vireander Kumar	2007	17.11.2011 (FN)
4.	Narender Kumar	2007	16.11.2011 (FN)
5.	Rajiv Kumar Nigam	2008	02.11.2011 (AN)
6.	D.K. Minna Prabhu	2008	04.11.2011 (AN)

D. K. PURBEY, Under Secy.

No. A-22012/4/2011-Estt.—The President is pleased to permit Smt. Anita Karwal, Section Officer of this Ministry, to retire Voluntarily from the Government Service under Rule 48(1-A) of CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from 13.01.2012 (AN).

D. K. PURBEY, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th February 2012

No. 01/2012. F.No. A-38012/1/2008-Adm.I—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge of the post of AD-I/AEE
1	2	3
S/Shri/Smt./Kum.		
1.	K. K. Sharma	30.12.2011
2.	Rehana Sayeed	30.12.2011

1	2	3
3.	Kavita Jha	30.12.2011
4.	Mohd. Anwar	30.12.2011
5.	Kishore Kumar	30.12.2011
6.	Shishir Prakash	30.12.2011
7.	Rai Singh Tomar	30.12.2011
8.	Deepa Khanna	30.12.2011
9.	B.S. Mehndiratta	30.12.2011
10.	Farooque Iqbal	30.12.2011
11.	Jaita Chatterjee	30.12.2011
12.	Bharat Gupta	30.12.2011
13.	Sheeta Sumit Jain	30.12.2011
14.	Raghvinder Singh	30.12.2011
15.	M.M. Nazir	30.12.2011
16.	Suman Bala	30.12.2011
17.	Budhvir Singh	30.12.2011
18.	Anil Raghuwanshi	30.12.2011
19.	Gurujit Medhi	30.12.2011

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 29th February 2012

No. 08/12. F.No. 20/5/2012-Adm.II—The President is pleased to appoint Shri Manoranjan Kumar IES (1986), as Economic Adviser in the Ministry of Power, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of the 14th February, 2012, until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th February 2012

No. 01/2012 (F.No. 11/5/2007-Admn.)—In terms of Section-5(1) and Section-19(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following is consolidated list of officers of the Ministry of Water Resources who are designated as Central Public Information Officers/Appellate Authorities in the various Sections/Wings of the Ministry of Water Resources :—

Sl. No.	Name & Designation of CPIO appointed	Name of the Section/Desk/work	Name & Designation of the Appellate Authority appointed
1	2	3	4
(S/Shri/Smt.)		(S/Shri/Smt./Kum.)	
1.	L. P. Sharma, Under Secretary (Admn.)	Administration Section & SC/ST/OBC Cell	Khatchin Langel, DS (Coord. & Admn.)

1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Arun Kumar, Under Secretary (Coord.)	Coordination Section	Khatchin Langel, DS (Coord. & Admn.)	18.	N. Mukherjee, Sr. Joint Commissioner (B&B)	Hydrology Project matters of Brahmaputra & Barak Wing	Narender Kumar, Commissioner (B&B)
A	Arun Kumar, Under Secretary (Parliament)	Parliament	Ram Swarup, Deputy Secretary (E-III & GA) except for establishment matters of FBP	19.	R. K. Sund, Under Secretary (B&B)	Matters of Brahmaputra & Barak Wing other than Hydrology Project	-Do-
3.	Ashok Kumar Gupta, under Secretary (General Administration)	General Administration & CR Sections	-Do-	20.	A.S.P. Sinha, Sr. Joint Commissioner (Ganga)	Ganga Wing	Devendra Sharma, Commissioner (Ganga)
4.	Jeetendar Chadha, Under Secretary (E-III)	Establishment-III Section	-Do-	21.	Ravish Ali, Under Secretary (PP)	Policy and Planning Section	M.K. Sinha, Sr. Joint Commissioner (PP)
5.	P. S. Chakraborty Under Secretary (WB)	Water Bodies Section	Charul Baranwal, Director (E) except for matters related to restructuring of CWC and CGWB	22.	M.C. Chand, Deputy Secretary (CAD)	Command Area Development and Water Management Wing	G.S. Jha, Commissioner (CADWM)
6.	Narendra Singh, Under Secretary (E-I)	Establishment-I Section	-Do-	23.	Asit Chaturvedi, Deputy Commissioner (BM)	Projects Wing works relating to Basin Management Section and Inter-Linking of Rivers/ National water Development Agency	Sh. Bhupinder Singh, Sr. JC (BM)-except for matters related to Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Narmada Control Authority
7.	Vineeth Abraham, Under Secretary (CGWB)	Central Ground Water Board Desk	-Do-	24.	Ajay Kumar, Under Secretary (BM)	Projects Wing works relating to Ganga Basin Section along with matters related to Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Narmada Control Authority	-Do-
8.	D. K. Paliwal, Under Secretary (PSU&PPP)	Public Section Undertakings Section and PPP Cell	Rajeev Kumar, Director (GW)	25.	Anant Ram, Section Officer (Projects)	Project Wing excluding Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Narmada Control Authority	T.D. Sharma, Sr. Joint Commissioner (PR) including the matters related to Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Narmada Control Authority.
9.	Nandan, N. Under Secretary (GW)	Ground Water Desk	-Do-	26.	Anil Kumar, Assistant Engineer (MI)	Minor Irrigation	S.L. Jain, Sr. Joint Commissioner (MI)
10.	Dalbir Kaur Bahri, Section Officer (WS)	Internal Work Study Unit	-Do-	27.	Dr. Samir Chatterjee, Sr. Joint Commissioner (Indus)	Indus Wing	G. Aranganathan, Commissioner (Indus)
11.	Suresh Vij, Section Officer (ID)	Infrastructure Development	Srikanta Panda, Director (Vigilance & e-Governance) including for matters related to restructuring of CWC and CGWB and for establishment matters of FBP	28.	Mamta Saxena, DDG (MI Stats.)	Minor Irrigation Statistics	Vijay Kumar, Additional Director General
12.	K. K. Sharma, Section Officer (Vigilance)	Vigilance Section	-Do-	29.	Vijay Srivastava, Under Secretary (Finance)	Finance Wing- Finance Desks and Budget-Section	S. K. Thakur, Director (Finance)
13.	Surendra Kumar, Section Officer (e-Governance Cell)	e-governance cell	-Do-	30.	V. K. Balayan, Under Secretary (EA)	External Assistance Desks including Foreign Training & Bilateral issues	Vijay Kumar, Advisor (Eco)
14.	Nagendra Kumar-II, Section Officer (Water Quality)	Water Quality Issues	Anoop Seth, (Dir. (E-II))				
15.	Shashi Pal, Under Secretary (Information, Education and Communication)	Information, Education and Communication Cell	-Do-				
16.	Rajendra Kumar Ojha, Under Secretary (E-II)	Establishment-II Section					
17.	Karam Bir Singh, Deputy Director (OL)	Official Language Section	Ramesh Babu Aniyeri, Director (OL)				

1	2	3	4
31.	R. A. Prasad, Deputy Controller of Accounts	Matters related to Principal Accounts Office and Pay & Accounts Office (Sectt.) and Cash Section	Hemant Jain, Controller of Accounts
32.	O. K. Tyagi, Deputy Controller of Accounts (CWC)	Matters related to Pay & Accounts Office (CWC) and Pay & Accounts Office (CSMRS)	-Do-
33.	B. Das, Sr. Accounts Officer (FBP)	Matters related to Pay & Accounts Office (FBP)	-Do-
34.	J. Thothadhri, Sr. Accounts Officer (CWPRS)	Matters related to Pay & Accounts Office (CWPRS)	-Do-
35.	D. P. Sharma, Sr. Accounts Officer (CGWB)	Matters related to Pay & Accounts Office (CGWB)	-Do-

Note :—In case work of any CPIO/Appellate Authority is changed or a new official joins in place of the existing CPIO/Appellate Authority, he/she would automatically be the CPIO/Appellate Authority of the allotted work. In case any CPIO/Appellate Authority proceeds on leave, the concerned Link Officer or the officer who is entrusted with the charge of the post of the concerned Division/Branch Head would automatically be the CPIO/Appellate Authority of the allotted work.

2. Shri L. P. Sharma, Under Secretary (Admn.) will henceforth be the Nodal Officer in respect of RTI Matters in the Ministry (Proper). His address and Telephone No. are indicated below :—

Shri L. P. Sharma  
Under Secretary (Admn.)  
Room No. 424  
Shram Shakti Bhawan  
Rafi Marg  
New Delhi-110001  
Tel. No. 23738126

KHATCHIN LANGEL, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd February 2012

No. A-22011/1/2012-Admn. I—The President is pleased to appoint Smt. Vinod Bala Jindal, a Central Secretariat Service Officer as Deputy Secretary in the Ministry of Urban Development with effect from 19.12.2011(FN) against an existing vacancy.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

The 13th February 2012

No. A-22012/1/2012-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Anand Singh Bhal, (IES : 1985) as Economic Adviser in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Urban Development with effect from 07.02.2012 (FN) and until further orders.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

New Delhi-110108, the 9th February 2012

No. K-11011/22/2004-DDIA-Vol. II—The President is pleased to appoint Shri Mahendra Kumar Gupta, IRPS (1998) as Commissioner (Personnel) in the Delhi Development Authority (DDA) (Deputy Secretary level) for a period of four years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD IA)

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 17th February 2012

No. A-32014/01/2008-Adm. I (Pt.)—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the grade of Section Officer (Group 'B'/Gazetted) (Pay Band-2) Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay Rs. 4,800/- on ad hoc basis in this Ministry for a period upto 30.06.2012, in pursuant to DoP&T's O.M. No. 6/5/2011-CS-I(S), dated 19.01.2012 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year	Period upto which ad hoc appointment on the post of Section Officer is extended
1	2	3	4
	S/Shri/Smt./Ms.		
1.	B. D. Sharma	1992	30.06.2012
2.	J. K. Kashyap	1992	29.02.2012
3.	M. R. Chandwara (SC)	1992	30.06.2012
4.	S. P. Goyal	1992	30.06.2012
5.	Sunita Sharma	1992	30.06.2012
6.	I. D. Sharma	1993	31.05.2012
7.	N. K. Joshi	1993	30.06.2012
8.	Naresh Kumar	1994	30.06.2012
9.	Om Prakash (SC)	1994	30.06.2012
10.	Rita Singh	1994	30.06.2012

1	2	3	4
11.	Sheesh Ram (SC)	1994	30.06.2012
12.	Vijay Kumar	1995	30.06.2012
13.	Saroj Bala Bhatia	1995	30.06.2012
14.	V. C. Tripathi	1995	30.06.2012
15.	Yogendra Vithal Randive (ST)	1995	30.06.2012
16.	Anil Kumar Sharma	1995	30.06.2012
17.	B. T. Chichulkar (ST)	1998	30.06.2012
18.	Chandra Kanta Mewar	2000	30.06.2012

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officers on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (a) The period of ad hoc promotion would be up to 30.06.2012 or till date of their retirement or till

the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.

- (b) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- (c) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DOP&T.

PRADEEP GAUR, Under Secy.